Regd. Off: 910, Chiranjiv Tower, 43-Nehru Place, New Delhi-110019 CIN No.: L72100DL1972PLC005971 Tel: 011-2644 1015-18, website: www.perfectpac.com, e-mail: complianceofficer@perfectpac.com

November 09, 2023

#### **BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001

**Ref:** <u>Scrip Code 526435</u>

Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisement - Unaudited Financial Results

Dear Sirs.

Further to our letter dated November 08, 2023, regarding approval of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2023. Please find enclosed newspaper advertisements published on November 09, 2023, in compliance with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in "Financial Express" (English) and "Jansatta" (Hindi).

The copy of aforesaid advertisements are also being disseminated on Company's website at <a href="https://perfectpac.com/iur30.aspx">https://perfectpac.com/iur30.aspx</a>.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully, For **Perfectpac Limited** 

Nidhi Company Secretary

Encl:- as above

Closing

Qty.

Place-Kanpur

#### PRABHAT SECURITIES LIMITED Regd Off-118/610 A, Kaushalpuri, KANPUR, -208002 CIN: L22022UP1982PLC005759

		3 Mo	onths ende	ed	6 Month	ns ended
SI. No.	Particulars	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022
1.	Total Income from Operations	1.75	6.19	6.50	7.94	12.34
2.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(3.30)	0.69	1.58	(2.61)	2.15
3.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3.30)	0.69	1.58	(2.61)	2.15
4.	Equity Share Capital	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00
5.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year					
6.	Earnings Per Share					
- 63	1. Basic :	(0.01)	3 95	0.05	(0.09)	0.07
- 83	2. Diluted:	(0.01)	8	0.05	(0.09)	0.07

2. The Limited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 has been completed and the related Report forwarded to the Stock Exchanges. This Report does not have any impact on the above "Results and Notes" for the Quarter ended 30" September, 2023 which 3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the stock

Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on Company's Website(www.http://prabhatsecuritiesItd.co.in) and Calcutta Stock Exchange website (http://www.msei.in) For PRABHAT SECURITIES LIMITED Date-08.11.2023 SD/- RAMAKANT KUSHWAHA

(MANAGING DIRECTOR )

#### DEUTSCHE BANK AG Appendix IV [Rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the authorized officer of Deutsche Bank AG, India ("Bank") having its registered office at Ground & 14th Floor, Hindustan Times House, 18 20, K.G Marg, New Delhi-110 001. The undersigned under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 24.02.2023 calling upon the borrower M/s Trade Enterprises ("Borrower"), Mr. Girish Luthra, & Ms. Nidhi Luthra, to repay the outstanding amount as mentioned in the notice being Rs.1,52,38,689/-(Rupees One Crore Fifty Two Lacs Thirty Eight Thousand Six Hundred Eighty Nine Only), and further interest at contractual rates on the aforesaid amount, incidental expenses, costs, charges etc. incurred and accruing on daily basis thereafter till the date of payment and / or realization within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower mentioned herein above having failed to repay the amount in full as mentioned in 13(2) is hereby given to the Borrower / Co-borrower mentioned herein above in particular and to the public in general that undersigned has taken symbolic/ constructive possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said act read with rule 8 of the said act on this 04th Day of November of the year 2023.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank for an amount of Rs.1,52,38,689/- (Rupees One Crore Fifty Two Lacs Thirty Eight Thousand Six Hundred Eighty Nine Only), and interest thereon.

Description of the Immovable Property

All that the self-contained residential property being :- Flat No. A-043, 4th Floor, Tower-A

Enigma Indiabulls, Sector-110, Gurgaon, Haryana-122017.

Place: New Delhi

previous year. 8. Earning Per Share

2. Diluted

(of Rs.10/- each)

(for continuing and discontinued operations)

Date: 09.11.2023

SADHNA BROADCAST LIMITED CIN: L92100DL1994PLC059093

Regd. Off.: 37, Second Floor, Rani Jhansi Road Motia khan, Paharganj, Delhi-110055 Email ID: cbnl.delhi@gmail.com Website: www.sadhna.com Phone: 91-11-23552627, Fax No.: 91-11-23524610 Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Result For The Quarter Ended 30th September, 2023

100	articulars	Ended (30/09/2023)	Figure	3 Months Ended in the previous year (30/09/2022)
	(Refer Notes Below)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1.	Total Income from Operations	543.31	952.32	231.29
2.	Net Profit/(Loss) for the period(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	130.63	152.18	-49.15
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items*)	130.63	148.09	-49.15
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	97.75	111.16	-53.80
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	97.75	111.16	-53,80
6.	Equity Share Capital	1002.65	1002.65	1002.65
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the			

The above is an extract of the detailed format of Quarter Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity

The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial items due to changes in accounting policies shall be disclosed by means of foot note. # Exceptional and/or Extraordinary Items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable

> For SADHNA BROADCAST LIMITED Name: Bal Mukund Tiwari

0.10

0.11

0.11

Date: 07.11.2023 Designation: Managing Director DIN: 02566683

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED Regd. Office: 11th Floor, Tower A. Peninsula Business Park, Ganpatrao TATA Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 CIN No.: U67190MH2008PLC187552

# DEMAND NOTICE

Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Tata Capital Housing Finance Limited (TCHFL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Rules already issued detailed Demand Notice dated below under Section 13(2) of the Act, calling upon the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s) (all singularly or together referred to "Obligors" / Legal Heir(s)/Legal Representative(s) listed hereunder, to pay the amount mentioned in the respective Demand Notice, within 60 days from the date of the respective Notice, as per details given below. Copies of the said Notices are served by Registered Post A.D. and are available with the undersigned, and the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.

In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Obligor(s) /Legal Heir(s)/Legal Representative(s) to pay to TCHFL, within 60 days from the date of the respective Notice/s, the amount indicated herein below against their respective names. together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said Obligor(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to TCHFL by the said Obligor(s) respectively.

Only)

Loan	Name of Obligor(s)/Legal	Total Outstanding Due	Date of Demand
Account No.	Heir(s)/Legal Representative(s)	Rs. as on below Dates	Notice & NPA Date
9869743 & 9482188	Mr. Deendayal Baheti	As on 25/10/2023, an amount of Rs. 4,23,259/- (Rupees Four Lakh Twenty Three Thousand Two Hundred Fifty Nine Only) is due and payable by you under Loan Account No. 9869743 and an amount of Rs. 5,38,015 /- (Rupees Five Lakh Thirty Eight Thousand Fifteen Only) is due and payable by you under Loan Account No. 9482188 i.e. totalling to Rs. 9,61,274/- (Rupees Nine Lakh Sixty One Thousand Two Hundred Seventy Four	26-10-2023 & 07-10-2023

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: All that piece and parcel of the Residential Unit/Flat bearing No. 9006, on 09th Floor, in Tower-D1, Admeasuring Carpet Area 414.37 Sq. Feet and Balcony Area 64.58 Sq. Feet, Situated at Krishna Housing Scheme, Sector 14, Sohna Road, Gurgaon,

Haryana.		R S N	_ 85 SERVE S
10350328	Mrs. Neha Saxena, Mr. Abhishek Saxena	As on 30/10/2023 an amount of Rs. 62,01,907/- (Rupees Sixty Two Lakh One Thousand Nine Hundred Seven Only)	30-10-2023 & 05-11-2020

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: All that piece and parcel of the property: 1. Apartment No. 1801 Tower No. C, 18TH Floor, Total area 1240 Sq. Ft. (115.20 Sq. Mt.) Carpet area 662.52 Sq. Ft. (61.55 Sq. Mt.) situated at Marina Suites, GH 3/1 Park Town NH Distt. Ghaziabad, U.P.- 201002 2. Apartment No. 1802 Tower No. C, 18TH Floor, Total area 1240 Sq. Ft. (115.20 Sq. Mt.

Carpet area 662.52 Sq. Ft. (61.55 Sq. Mt.), situated at Marina Suites, GH 3/1 Park Town NH Distt, Ghaziabad, Uttar Pradesh, 201002.

with further interest, additional Interest, at the rate as more particularly stated in respective Demand Notices dated mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and/or realization. If the said Obligor(s) shall fail to make payment to TCHFL as aforesaid, then TCHFL shall proceed against the above Secured Asset(s) Immovable Property(ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/ Legal Representative(s) as to the costs and consequences.

The said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset(s)/Immovable Property(ies), whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of TCHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder

shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act. DATE :- 09-11-2023,

PLACE :- DELHI

For TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED

# RANJAN POLYSTERS LIMITED

Email: ranjanpoly@gmail.com, Website: www.ranjanpolysters.com CIN: L24302RJ1990PLC005560, Tel No.- 01482-297132

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023

Sr.	Particulars			Audited		
No.	V	Quart	er Ended	Half Year	Year Ended	
		30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
1.	Total Income from Operations (Net)	2272.20	2040.58	4700.02	4070.22	8433.65
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	171.77	74.71	355.15	145.01	398.93
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	171.77	74.71	355.15	145.01	398.93
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	135.82	51.41	260.57	95.03	284.19
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	134.99	51.08	258.92	94.37	280.90
6.	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/-each)	300.09	300.09	300.09	300.09	300.09
7.	Reserve excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year.					1051.97
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1.Basic 2. Diluted	4.52	1.72	8.68	3.17	9.47

Date: November 8, 2023

Place: Bhilwara

Natansh Kr. Pal

Authorized Officer, Deutsche Bank AG

Quarter Veer to date Co.

The above unaudited standalone financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on November 8, 2023.

The results for the Quarter and half year ended 30.09.2023 have been restated to Comply with Ind AS to make them comparable with the Current Period. Further previous period figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to confirm with the current period

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half Year ended 30th September 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Half Yearly ended Financial Results is available on the Stock Exchange website, www.msei.inand on the company's website, www.ranjanpolysters.com.

By the order of the Board MOHIT KUMAR BHIMSARIA Director DIN No. 00389098

Retail Asset Centre: Axis Bank Ltd., Axis House, Tower T-2, 2nd Floor, I-14 Sector-128, Noida Expressway, Jaypee Greens Wishtown, Noida (U.P.)-20130 and other RAC of Delhi & NCR. Corporate Office: 'Axis House', Block-B, Bombay Dyeing Mill Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai-400025 **Registered Office**: 'Trishul', 3rd loor, opposite Samartheswar Temple, Law garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006 POSSESSION NOTICE UNDER SARFAESI ACT 2002

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of Axis Bank Ltd. under the Securitisation

onethiction of Einancial Assats and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in ever

powers conferred under section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) rule: 2002, issued demand notice upon the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Axis Bank Ltd. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s). Guarantor(s)/ Mortgagor(s) attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Name Of Borrower / Co-Borrower :- 1. Mr. Anand Kumar S/o Mr. Lal Singh A-75/1. Flat No.8, 2nd

Floor, keshav Kunj, Keshav Marg, Near Mangalam Hospital, East Vinod Nagar, Delhi-110092, Also At :- Mr. Anand Kumar House No. 100, Chamandi, Alwalpur, Patna Bihar, Pin-803203, Also At: Mr. Anand Kumar Yuvisha Techonologies Pvt Ltd. A-90, 3rd Floor Sector-4 Noida U.p-201301, Mrs. Neetu Kumari W/o- Anand Kumar A-75/1, Flat No.8, 2nd Floor, Keshav Kuni, Keshav Marg Near Mangalam Hospital, East Vinod Nagar, Delhi- 110092, Also At :- Mrs. Neetu Kumari Housi No.100, Chamandi Alwalpur, Patna Bihar, Pin-803203, Also At :- Mrs. Neetu Kumari Hander, P.o. Sonagopalpur, Sampatchak, Patna-800007

DESCRIPTION OF PROPERTY :- Residential Flat / Dwelling Unit Bearing No. 340 on Third Floor, In Tower/block No.-e, Admeasuring Area Approx. 925 Sq. Ft. (85.94 Sq. Mts.) Super Build- Up Area In The Said "GALAXY NORTH AVENUE-II" situated at plot no. GC-03D/GH-03 SECTOR Greater Noida, Dist. Gautam Budh Nagar Uttar Pradesh.

Date Of Demand Notice | DATE OF POSSESSION | AMOUNT IN DEMAND NOTICE (RS.) Rs. 20,83,808/- (Rupees Twenty Lakh Eighty Three 06-Nov-2023 25-Aug-2021 Thousand Eight Hundred Eight Only)

The above-mentioned Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) are hereby given a Notice to repay the amount, before the publication of Sale Notice as per the SARFAES Rule 8 & 9 of the Act, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days' from the date of publication of Sale Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002 Sd/- Authorized Officer, Axis Bank Ltd Date: 09.11.2023, Place:- Noida

## "Form No. INC-26"

[Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT (RD, NORTH REGION BENCH, DELHI) In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of Kashish Projects Private Limited having its registered office at 108, First Floor Madangir Village, South Delhi, New Delhi, India, 110062

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act. 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the extra-ordinary general meeting held on Monday, 30th October, 2023 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Goa".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

At 108, First Floor Madangir Village, South Delhi, New Delhi, India, 110062 For and on behalf of the Applicant

**Kashish Projects Private Limited** 

**Gopal Arora** (Director) Date: 08.11.2023 (DIN: 09026016) Place: Delhi

CAN FIN HOMES LTD. SCO 34 & 35 1ST FLOOR, ABOVE CANARA BANK, Can Fin Homes Ltd Sector 10A Gurgaon. Ph.: 0124-2370035, 7625079135 Email: gurgaon@canfinhomes.com CIN: L85110KA1987PLC008699 DONSON CANARA BANK) DESIGNATION OF THE STREET DEMAND NOTICE Under Section 13 (2) of "The Securitisation and Reconstruction of Financial

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 54 of 2002)"

1. Mrs.Chandrkanta (Borrower) W/O Late Naresh Kumar. DN 71/2 WARD NO 1-SHYAM NAGAR PALWAL HARYANA PIN 121102, Also At: PLOT NO 76 B KHASRA NO 109/19 MIN SHYAM NAGAR COLONY PALWAL HARYANA PIN 121102 2. Mr. KAPIL (CO-Borrower) S/O NARESH KUMAR. HOUSE NO 206A KISHORA

MOHALLA VILLAGE KHERI SARAI(155) PALWAL BAMNI KHERA HARYANA PIN 121105, Also At: PLOT NO 76 B KHASRA NO 109/19 MIN SHYAM NAGAR COLONY PALWAL HARYANA PIN 121102 3. Mr. MOHIT TAYAL (GUARANTOR) S/O SANT LAL. THAI MOHALLA NEAR BHOLA

NATH DHARMSHALA PALWAL PIN 121102 M 9802717310 No. 1 & 2 amongst you have availed a housing loan from our branch against the security of

mortgage of the following asset belonging to Mrs.Chandrkanta (Borrower) W/O Late Naresh Kumar of/Amongst you. An amount of Rs. 31.37.103.00/- is due from you, to Can Fin Homes Ltd. as on 01.11.2023 together with future interest at the contracted rate. Details of the mortgaged asset

PLOT NO 76 B PROPERTY NO B 5/1, E/33N, COLONY CODE NO 4/4/376 PALWAL HARYANA PIN 121102.

BOUNDARIES OF THE PROPERTY ARE AS UNDER North: Road

South: Other Property East: Plot No 75. House of Aiit Hans. West: Plot No 77. House of Hira Nand

Registered demand notice was sent to Nos. 1 & 2 amongst you under Section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002, but the same was returned unserved. The undersigned has therefore, caused these Notices to be pasted on the premises of the last known addresses of the said **Borrower/s** as per the said Act. Hence this paper publication. As you have failed to adhere to the terms of the sanction, the account is classified as a Non Performing Asse on NPA 29.10.2023 as per the NHB Guidelines. You are hereby called upon to pay the above said amount with contracted rate of interest thereon from 01.11.2023 DEMAND NOTICE within 60 days from the date of this notice, failing which the undersigned will be constrained to Initiate action under SARFAESI Act to enforce the aforesaid security Further, the attention of borrowers / guarantors is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to them to redeem the secured

assets. Date: 08.11.2023 Place: Gurugram

**Authorised Office** Can Fin Homes Ltd.

----Sd----

केनरा बैंक 🛆 Canara Bank The second

DSS 45-46, Sector 21C Market Faridabad, Haryana - 121003

POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)] (For Immovable property) Whereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 28/06/2023 calling upon the borrower Sri. Neeraj Sharma S/o Sri Naresh Sharma and Smt. Vandana Sharma W/o Sri. Neeraj Sharma t repay the amount mentioned in the notice, being Rs.8,35,610.60 (Rupees Eight Lakh Thirty Five Thousand Six Hundred Ten and Sixty paisa only) as on 16/06/2023 with further Interest and charges thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act. read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this 6th day of November of the year 2023. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of Rs.8,35,610.60 (Rupees Eight Lakh Thirty Five Thousand Six Hundred Ter

Description of the Immovable Property All that part and parcel of the Residential Property H No. 2652/LIG/Ground Floor measuring

The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of

and Sixty paisa only) as on 16/06/2023 and interest thereon.

time available, to redeem the secured assets.

49.79 sq. yards situated in Sector 3, Housing Board Colony, Tehsil Ballabhgarh Distt. Faridabad Haryana Bounded: By North: H No. 2651/LIG/GF, By South: H No. 2653/LIG/GF, By East: Public Road, By West: H No. 2683/LIG/GF. Place: Faridabad

Date: 09-11-2023 Authorised Officer, Canara Banl NORTHERN RAILWAY

TENDER NOTICE No. 67/2023-2024

**Brief Description** 

supply of the following items:-

Tender

S.No.

Invitation of Tenders through E-Procurement system. Principal Chief Materials Manager, Northern Railway, New Delhi-110001, for and on behalf of the President of India, invites e-tenders through e-procurement system for

	No.			Date
1	09232183	BOGIE END PULL ROD	3398 NOS	01.12.23
2	05234982B	CYLINDRICAL ROLLER BEARING FOR TAO-659	105 NOS	01.12.23
3	09232132B	COUPLER BODY WITH SHANK WEAR PLATE	2504 NOS	04.12.23
4	20233856	GLASS FIBRE BAG FILTER	2237 NOS	05,12,23
5	06235089A	MANUFACTURE AND SUPPLY OF 53-S GRADE ORDINARY PORTLAND CEMENT	2100 MT	05.12.23
6	20241053	LOCO SIDE BUFFER (BG) MINOR ASSLY	156 NOS	05.12.23
7	15235188	ELECT. COMPRESSOR 1000 CFM	02 NOS	07.12.23
8	15235109B	SPARK BASED OPTICAL EMISSION SPECTROMETER	02 NOS	07.12.23
9	09233008	ENAMEL SYNTHETIC, EXTERIOR, FINISHING	62967 LTR	11.12.23
10	15235178	DOUBLE GIRDER EOT CRANE 10T CAP.	04 NOS	11.12.23
11	15235105	BATTERY OPERATED FORK LIFT 5T CAPACITY	06 NOS	13.12.23
12	15235184	HYDRA 15T CAPACITY	05 NOS	15,12,23
13	07230463	OVER HAULING KIT FOR BRAKE CYLINDER	1012 SET	28.12.23

Note: 1). Vendors may visit the IREPS website i.e. www.ireps.gov.in for details. 2. No Manual offer will be entertained. Tender Notice No. 67/2023-2024 Dated: 08/11/2023

3494/23 SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

### PERFECTPAC LIMITED

Regd. Office: 910, Chiranjiv Tower-43, Nehru Place, New Delhi - 110019 Phone No.: 011-26441015-18, Website: www.perfectpac.com Email: complianceofficer@perfectpac.com, CIN No.: L72100DL1972PLC005971

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

(Rs. In lakhs except EPS) Quarter Ended Year Ended Half Year Ended **PARTICULARS** 31.03.2023 30.09.2023 30.06.2023 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2022 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 2,532.98 2,397.92 2,455.61 4.930.90 4.984.08 9,992.99 Total Revenue from operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items) 144.61 160.28 101.35 304.89 141.76 365.76 144.61 101.35 304.89 365.76 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items) 160.28 141.76 Net Profit / (Loss) for the period after tax and Exceptional items 114.59 119.31 62.16 233.90 98.95 283.20 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss 119.31 233.90 98.95 287.90 for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 133.26 133.26 133.26 133.26 133.26 133.26 Equity Share Capital Earnings Per Share of Rs. 2/- each 1. Basic (Rs.) 1.72 1.79 0.93 3.51 1.49 4.25 2. Diluted (Rs.) 1.72 1.79 0.93 3.51 1.49 4.25

the Board of Directors at its Meeting held on November 08, 2023. 2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023, filed with the Stock Exchange under Regulation 33

of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30 2023 along with review report of the Statutory Auditors is available under the investor section of our website at www.perfectpac.com and on the website of the stock exchange i.e. www.bseindia.com. For Perfectpac Limited

1. The above unaudited financial results were, subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by

Sanjay Rajgarhia Managing Director

POONAWALLA HOUSING FINANCE Apna Ghar Apni Pehchan

Place: New Delhi

Date: 08.11.2023

POONAWALLA HOUSING FINANCE LIMITED (FORMERLY, MAGMA HOUSING FINANCE LIMITED) Registered Office: 602, 6th Floor, Zero One It Park, Sr.No. 79/1, Ghorpadi, Mundhwa Road, Pune - 411036

Branch Off Unit: 2nd Floor, Friends Plaza, 52/53, Ishwar Nagar, New Delhi - 110030.

E-AUCTION -SALE NOTICE

E-AUCTION – SALE NOTICE SALE OF SECURED IMMOVABLE ASSET UNDER SARFAESI ACT Notice is hereby given to the public in general and to the Borrowers/Co-Borrowers/Guarantors in particular, that under mentioned properties mortgaged to Magma Housing Finance Ltd has now been renamed as Poonawalla Housing Finance Ltd ('PHFL') vide Certificate of Incorporation, the possession of which had been taken by PHFL's Authorised Officer under Sec 13(4)/14 of SARFAESI Act; will be sold through e-auction as per terms mentioned below for recovery of PHFL's outstanding dues with applicable interest, charges, and costs etc. The property described below will be sold on "AS IS, WHERE IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" under Rule 8 & 9 of Security Interest (Enforcement) Rules. For detailed T&Cs of sale, please refer to link provided in PHFL's/Secured Creditor's website i.e. www.poonawallahousing.com

Proposal No. Customer Name (A)	Demand Notice Date & Outstanding Amount {B}	Nature of Possession (C)		Reserve Price (E)	EMD (10% of RP) {F}	EMD Submission date (G)	Incremental Bid (H)	Property Inspection Date & Time (I)	Date and time of Auction (J)	Known encumbrances /Court casesif any (K)
00616AND HF/0399/H/20/1	Notice date: 17/04/2023 Rs. 3108357.99/- (Rupees Thirty One Lacs Eight Thousand Three Hundred Fifty Seven and Ninety Nine Paisa Only) payable as on 17/04/2023 along with interest @ 12.5 p.a. till the realization. Rs.211993.42/- (Rupees Two Lacs Eleven Thousand Nine Hundred Ninety Three and Forty Two Paisa Only) payable as on 17/04/2023 along with interest @ 14 p.a. till the realization.		ALL THAT PIECE AND PARCEL OF THE FLAT NO. UGF- 03, UPPER GROUND FLOOR, BACK SIDE, AREA MEASURING 60 SQ. YDS, PLOT NO.1/757 SECTOR- 1, VASUNDHARA GHAZIABAD (HEREIN AFTER CALLED 'SAID PROPERTY')	- (Rupees Twenty Two Lakh	Two Lakh Twenty Eight Thousand	5 PM	10,000/-	17/11/2023 (11AM to 4PM)	24/11/2023 (11 AM- 2PM)	NIL

The intending bidders/purchasers are advised to visit PHFL Branch and the auction properties, and make his own enquiry and ascertain additional charges, encumbrances and any third-party interests and satisfy himself/herself/itself in all aspects theretobefore submitting the bids. All statutory dues like property taxes, electricity/water dues and any other dues, if any, attached to the property to be ascertained and paid by the successful bidder. The interested bidders are required to register themselves with the portal and obtain login ID and Password well in advance, which is mandatory for e-bidding, from auction service

provider) C1 India PVT LTD. Address- Plot No-68 3rd floor Gurgaon Haryana-122003. Helpline Number- 7291981124,25,26 Support Email id - Support@bankeauctions.com. Contact Person - Vinod Chauhan, Email id-delhi@c1india.com Contact No-9813887931. Please note that Prospective bidders may avail online training on e-auction from them only. The intending purchaser/bidder is required to submit amount of the Earnest Money Deposit (EMD) by way of by way of NEFT/RTGS /DD in the account of "Poonawalla Housing" Finance Ltd", Bank-ICICI BANK LTD, Account No-000651000460 and IFSC Code-ICIC0000006, 20, R. N. Mukheriee Road-Kolkata-700001 drawn on any nationalized or scheduled Bank on or before 23/11/2023 and register their name at https://www.bankeauctions.com and get user ID and password free of cost and get training on e-Auction from the service provider. After their Registration on the website, the intending purchaser/bidder is required to get the copies of the following documents uploaded, e-mail and sent self-attested hard copy at Address-2nd Floor, Friends Plaza, 52/53, Ishwar Nagar, New Delhi - 110030Mobile no. +91 8588802671 and +91 9910453434 e-mail ID anoop.kumar@poonawallahousing.com

Place : Delhi.

Date: 09-11-2023

**Authorised Officer** Poonawalla Housing Finance Limited (Formerly Known as Magma Housing finance Ltd)



#### AKG EXIM LIMITED CIN No. L00063DL2005PLC139045

REG. OFF.: H.B. TWIN TOWER, 07 FLOOR, MAX HOSPITAL BUILDING, NETAJI SUBHASH PLACE. PITAMPURA, DELHII-110034

CORP. OFFICE - UNIT NO. 237, 02ND FLOOR, TOWER-B, SPAZEDGE, SECTOR-47, GURUGRAM-122018, HARYANA Email Id:-info@akg-global.com | Ph.: +91-124-4267873 | Fax: +91-124-4004503

AKGExim Limited

Website: www.akg-global.com EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023

		CONSOL	LIDATED			STAND	ALONE	
Particulars	Quarter ended September 30, 2023	STREET, STREET	Quarter ended September 30, 2022	Year ended March 31, 2023	Quarter ended September 30, 2023	Quarter ended June 30, 2023	Quarter ended September 30, 2022	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED
Total income/revenue from operations (net)	3,658.81	5,608.77	4,846.08	22,086.51	2,093.13	3,536.54	1,371.43	8,569.97
Net Profit / (Loss) for the period/year before exceptional items & tax	37.85	57,70	57.05	298.68	18.70	39.81	20.05	178.85
Net Profit / (Loss) for the period/year after exceptional items & tax	28.01	46.09	42.39	247,79	13.84	28.20	15.01	127.97
Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period/year (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	-	1	8-		-	154	-	158
Paid-Up Equity Share Capital	3,177.66	3,177.66	1,059.22	3,177.66	3,177.66	3,177.66	1,059.22	3,177.6
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	2							
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) Basic (Not annualised)	0.09	0.15	0.40	0.78	0.04	0.09	0.14	0.4
Diluted (Not annualised)	0.09	0.15	0.40	0.78	0.04	0.09	0.14	0.4

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Finacial Results are available on the National Stock Exchange of India Limited i.e., www.nseindia.com and also on the Company's Functional websites i.e., www.akg-global.com.

New Delhi

AKG EXIM LIMITED Mahima Goel (Managing Director)

For and on behalf of

financialexp.epa

Sd/- Authorised Officer

Place: Gurugram

Date: 07th November, 2023

(स. लाखाँ में)

### अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआर.पी.सी. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त राहुल पुत्र दीना नाथ निवासी बापरोला, रनहोला, दिल्ली ने मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 188/2021 धारा 392/394/397/34 भा.द.सं के तहत थाना निहाल विहार, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त राहल मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त राहल फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि प्रथम सचना रिपोर्ट संख्या 188/2021 धारा 392/394/397/34 भा.द.सं के तहत थाना निहाल विहार, दिल्ली के उक्त अभियुक्त राहल से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 30.01.2024 को या इससे पहले हाजिर हो।

> आदेशानुसार श्री राकेश कुमार रामपुरी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) कमरा न0. 132, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

### CORAL NEWSPRINTS LTD.

DP/12635/OD/2023

CIN NO: L22219DL1992PLC048398, E-mail: cnpl\_5000@rediffmail.com Website: www.coralnewsprintslimited.com, Tel.: 22010998 Annexure XI

Abstract of Unaudited Financial Result (Standalone) for the Quarter & Year ended on 30.09.2023 (Rs. in lacs,

Year to date Quarter Sr. | Particulars Figures ended 30.09.2023 31.03.2023 30.09.2022 Unaudited Audited Unaudited 27.10 1070.77 286.10 Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) from ordinary (45.55)activities after tax (9.59)(69.53)Net Profit / (Loss) for the period (69.53) 505.27 (9.59)(45.55)after tax (after Extraordinary items) 505.27 505.2 **Equity Share Capital** Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance (1,187.03) (1,185.45)(1,269.61)Sheet of previous year) Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (1.38) (1.38) Basic: (0.19)(0.90)(0.19)Diluted Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (1.38) (1.38) (0.90)Basic : (0.19)(0.19) Diluted

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financia Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and on Company's website at www.coralnewsprintslimited.com By Order of the Board For Coral Newsprints Ltd

(Pushpendra P.S.Chauhan) Place : Delhi Dated: 08.11.2023 Whole Time Director & CEO, (DIN No: 01871760



TALBROS

### दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत बिक्री सूचना एसपीजी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड –परिसमापन में परिसमापक कार्यालयः 5203, डीएलएफ सिटी फेज -4, गुडगांव, हरियाणा-122002

ई-नीलामी की तिथि और समय: 11 दिसंबर, 2023 सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मैसर्स एसपीजी ग्लोबल डिस्टीब्यशन प्राइवेट लिमिटेड — परिसमापन में बी —363, 364 और 365, नेहरू ग्राउंड, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा—121001, भारत की माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ द्वारा द्वारा दिनांक 07.08.2023 के आदेश द्वारा नियक्त परिसमापक, **"जैसा है" "जहां है" "जो कुछ भी है",** और **"कोई सहारा आधार नहीं"**, की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर जनता को सुचना दी जाती है।

वृद्धिशील बोली

आरक्षित मृत्य ईएमडी

व्यापार/संपत्ति की प्रकृति और विवरण ( 表. में ) एक चालित कंपनी के रूप में कॉर्पोरेट देनदार की बिक्री नीलामी की तिथि और समयरू 10 दिसंबर 2023 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक एक चालित कंपनी के रूप में कॉर्पोरेट देनदार की 1,86,02,400 10,00,000 1,00,000 (परिसमापन विनियम, 2016 के विनियमन 32 (ई) के तहत) जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं और 🗃 पार्सल में परिसंपत्तियों की बिक्री (यदि क्रम संख्या ए की नीलामी के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं होती है)

1.86.02.400 10.00.000 1.00.000 प्लॉट नंबर बी 363,364,365, नेहरू ग्राउंड, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा में भूमि और भवन-122001

नीलामी की तिथि और समय 10 दिसंबर 2023 को दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक

–नीलामी के नियम और शर्तेः

. बिक्री 'जहां है", "जैसा है", "जो कुछ भी है" और "कोई सहारा आधार नहीं" पर है। ् बिक्री ई—नीलामी प्लेटफॉर्म (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी

3. संपत्ति. संपत्ति आदि का विवरण ई—नीलामी प्रक्रिया सचना दस्तावेज में प्रदान किया जाता है जिसे https://right2vote.in पर अपलोड किया जाता है और इसे ईमेल भेजकर भी प्राप्त किया जा सकता liquidator.spgqlobalpvt@gmail.com

4. प्रत्येक विकल्प / लॉट के लिए ईएमडी प्रस्तुत करने पर सभी दो विकल्पों में बोली लगाने की अनमति 5. यदि उपरोक्त बिंद् में विकल्प ए के तहत बोलीदाता उल्लिखित बोली से उच्चतम मुल्य प्रदान

करता है, तो विकल्प ए के तहत एच 1 बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा और विकल्प बी के तहत ई—नीलामी रद्द कर दी जाएगी । पात्रता दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथिः 23.11.2023 योग्य बोलीदाता की घोषणा की तिथिः 28.11.2023

अंतिम निरीक्षण तक की तिथिः 05.12.2023 ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 09.12.2023 नीलामी की तारीखः 11.12.2023

परिसमापक को किसी भी या सभी प्रस्तावों को खीकार या अखीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित / स्थगित / रद करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर नीलामी कार्यवाही से किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को वापस लेने का पूर्ण अधिकार है। हस्ता / प्रमोद कुमार मिश्रा

परिसमापक – एसपीजी ग्लोबल डिस्ट्रीब्युशन प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन के तहतों आईबीआईबी पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P-02669/2022-2023/14099 दिनांक: 09.11.2023 एएफए 24.04.2024 तक मान्य है पंजीकृत पता : 5203 डीएलएफ सिटी, फेंज —4 गुड़गांव, हरियाणा —122002 स्थानः गृहगांव

# सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

		ालामटड के लनदारा के ध्यानाथ ति विवरण
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	आइसबर्ग एक्वा प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	27जून2003
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U15549DL2003PTC125516
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	यूनिट नं. 1081, 10वीं मंजिल, अग्रवाल मिलेनियम टावर—2, उत्तरी दिल्ली, नेताजी सुभाष प्लेस, दिल्ली—110034 भारत

6. कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध 30 अक्ट्बर, 2023 (आदेश की प्रति अक्षमता आरंभन तिथि। 06 नवंबर 2023 को प्राप्त हुई ) ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के 27 अप्रैल, 2024 समापन की पूर्वानुमानित तिथि

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में श्री शमशेर बहादुर सिंह

कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल पिंजी. सं.:IBBI/IPA-003/0341/2021-2022/13623 का नाम और रजिस्टेशन नम्बर े अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और 48, सिद्धार्थ अपार्टमेंट, इंदर एन्क्लेव रोहतक रोड के पीछे, ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है ज्वाला पुरी नंबर 5 के सामने, नई दिल्ली-110087

ईमेल:shamsher\_cs@yahoo.co.in डी-54. प्रथम तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई—मेल ईमेल : cirp.iapl2023@gmail.com

दावा प्रस्तुत करने हेत् अंतिम तिथि 20 नवंबर, 2023 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वाराधारा २१ की लाग नहीं 4 उप—धारा (६क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई

किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के लागू नहीं रूप में कार्य करने हेत् चिहिनत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम) 4 (क) संबंधित प्रपन्न और

वेब लिंक: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है: रतदद्वारा सुचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली पीठ—V ने दिनांक **30 अक्टूबर, 2023**. आदेश की प्रति 06 नवंबर 2023 को प्राप्त हुई ) को **आइसबर्ग एक्वा प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध

**आइसबर्ग एक्वा प्राइवेट लिमिटेड** के लेनदारों से एतदद्वारा अपने दावों का प्रमाण 20 नवंबर 2023 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्गित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है । वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा । अन्य सभी लेनदार

अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तृत कर सकते हैं । दावों का प्रमाण भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अध्याय IV के अनुसार प्रस्तृत किया जाना चाहिए। दावों का प्रमाण उनके दावों के समर्थन में दस्तावैजी प्रमाण के साथ निम्नलिखित निर्दिष्ट प्रपत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है ।

फॉर्म बी— ऑपरेशनल क्रेडिटर्स (कर्मचारियों और कर्मचारियों को छोडकर) के दावों के लिए: फॉर्म सी— विलीय ऋणदाताओं के दावों के लिए, फॉर्म सीए— उपरोक्त वर्ग में वित्तीय ऋणदाताओं के दावों के लिए, फॉर्म डी— श्रमिकों और कर्मचारियों के दावों के लिए, फॉर्म ई— श्रमिकों और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधियों के दावों के लिए, फॉर्म एफ— के लेए वित्तीय ऋणदाताओं और परिचालन ऋणदाताओं के अलावा अन्य ऋणदाताओं के दावे । दावे के फर्जी अथवा चामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी। शमशेर बहादर सिंह

दिनांक: 09.11.2023 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, आइसबर्ग एक्वा प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-003/0341/2021-2022/13623

# टैल्ब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 74-75-76. सेक्टर-6, फरीदाबाद, हरियाणा 121006

फोनः 0129-4284300. फैक्सः 0129-4061541 वेबसाइटः www.talbrosaxles.com ईमेलः cs@talbrosaxles.com 30 सितंबर 2023 को समाप्त दसरी तिमाही और छमाही के लिए

	उठ रसरावर, 2023 वर्ग सनारा र स्टैंडअलोन अपरीक्षित वि	-03		(लाख रूपयों मे
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	चालू वर्ष से आज तक/ समाप्त अवधि	पिछले समाप्त वर्ष के संगत 3 महीने की अवधि
	×	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2022
1	परिचालन से कुल आय	10,250.26	19,935.16	11,803.34
2	अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर और असाधारण और/या असामान्य मदों से पूर्व)	594.56	1209.07	1,042.79
3	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असामान्य मदों के बाद)	594.56	1209.07	1,042.79
4	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असामान्य मदों के बाद)	443.91	898.91	775.24
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय इिसमें अवधि के लिए (कर के बाद) व्यापक लाम/डानि और /या असामान्य मदें शामिल हैं}	443.91	898.91	775.24
6	इक्विटी शेयर पूंजी	507.65	507.65	507.65
7	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर)		(31	11435.45 मार्च, 2023 तक)
8	प्रति शेयर आय (ईपीएस) (प्रति रु. 10/-) (जारी और परिसमाप्त संचालन के लिए) -			

नोटः अ) उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर त्रैमासिक समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप के विवरण हैं। त्रैमासिक समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के पर्ण प्रारूप परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.talbrosaxles.com) पर

8.74

8.74

17.71

17.71

15.27

15.27

के लिए और बोर्ड की ओर से

- उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 08 नवंबर, 2023 को आयोजित बैठक में स) निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 के लिए रूपये 10 / – के प्रति अंकित मृत्य के इक्विटी शेयर पर 1.50 / – रूपये (केवल एक
- रुपये और पचास पैसे) के अंतरिम लाभांश के भूगतान के लिए स्वीकृति दे दी है। अंतरिम लाभांश के भूगतान के प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड तिथि 21 नवंबर, 2023 तय की गई है।

हस्ता /-(अंकुश जिंदल) कार्यकारी निदेशक डीआईएन: 03634690 स्थानः फरीदाबाद निवासी मकान नंबर 37, सेक्टर-55, फरीदाबाद, हरियाणा 121004 दिनांकः 08 नवंबर 2023

'IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

प्रदत्त इक्विटी शेयर पुंजी आरक्षित) मूल रु. में प्रति शेयर तरल रु. मे प्रति शेयर में लिये गये। स्थानः नई दिल्ली तिथि: 8 नवम्बर, 2023

एसएमसी क्रेडिटस लिमिटेड 24. अशोका चैम्बर्स, 5-बी, राजिन्द्रा पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060 सीआईएन: L65910DL1992PLC049566, वेबसाइट: www.smccredits.com 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रु. लाखों : समाप्त तिमाही परिचालनों से कुल आय (शुद्ध) 85.17 440.4 183.16 545.41 355.23 99.23 अवधि के लिए शृद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष एवं/अथवा असाधारण मदों से पर्व) 283.4 30.55 313.95 65.88 278.24 50.25 कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद ) 283.4 313.95 65.88 1180.66 30.55 50.25 कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद ) 206.96 233.95 40.57 1022.05 26.99 27.19 अवधि हेतु कुल व्यापक आ 0.00 41184.67 40281.44 45617.53 (सम मुल्य रु. 10/- प्रति शेयर) 2505.55 2505.55 1002.22 2505.55 1002.22 2505.55 आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त 94668.42 आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (असाधारण मदों के बाद) (रु. 10/- प्रति का) 0.83 0.93 0.11 0.50 0.66 0.83 0.50 0.93 0.66 0.11 7.36 1) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज दाखिल की गई समाप्त तिमाही एवं छमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। उक्त तिमाही एवं छमाही परिणामों का संपूर्ण प्रारू स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं। 2) उक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 8 नवम्बर. 2023 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अभिलेर एसएमसी क्रेडिट्स लिमिटेड के लि राजेश गोइनक

अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशव DIN:0029822



# मेगास्टार फूड्स लिमिटेड

सीआईएन: L15311CH2011PLC033393 पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 807, औद्योगिक क्षेत्र, फेज—ा, वंडीगढ़ 160102 कार्यः ग्राम सोल्खियां, हवेली रिजार्ट्स के समीप, जनपद रूपनगर, 140108

के अनंकेशित समेकित विलीव परिणामों का सद्धरण

कोनः +91 1881 240401; वेबसाइटः www.megastarfoods.com; ई-मेलः cs@megastarfoods.com 30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए मेबास्टार फूड्स लिमिटेड

	1	WHIPE PAN	समाप्त विमार्ड		समाप्त	<b>छमा</b> ही	समाप्त वर्ष
那. 电.	विवरण	30.09.2023 (अनंकेक्षित)	30.06.2023 (अनंकेंसित)	30.09.2022 (अनंकेसित)	30.09.2023 (अनंकेसित)	30.09.2022 (अनंकेसित)	31.03.2023 (अंकेश्वित)
1	प्ररिचालनों से कुल आय	6,997.00	7,155.36	6,503.89	14,152.36	12,323.55	30,440.19
2	कर से पहले सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ	272.69	274.28	215.92	546.97	407.22	1362.56
3	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (पीएटी)	202.94	208.14	145.12	411.08	287.40	1008.20
4	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद अवधि के लिए लाम और कर के बाद अन्य व्यापक आय शामिल)	206.36	200.53	149.76	406.89	297.91	1018.07
5	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर अंकित मूल्य रू 10/— प्रति)	1000.37	1000.37	1000.37	1000.37	1000.37	1000.37
6	अन्य इक्विटी	4015,13	3808.76	2884.37	4015.13	2884.37	3608.23
7	प्रति इक्विटी शेयर आय (शेयर अंकित मूल्य रू 10/- प्रति)	10	10	10	10	10	10
	मूलभूत	2.03	2.08	1.45	4.11	2.87	10.08
	तरलीकृत	2.03	2.08	1.45	4.11	2.87	10.08

अनंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की प्रमुख संख्याएँ (रू. लाखों में) समाप्त विमाही समाप्त वर्ष समाप्त छमाही विवरण 30.09.2023 30.06.2023 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2022 31.03.2023 (अनंकेसित) (अनंकेदित) (अंकेक्षित) (अनंकेंदित) (अनंकेंदित) (अनंकेसित) प्ररिचालनों से कुल आय 6,317.45 5,767.86 6,498.88 12,085.32 12,315.74 26,799.00 कर पूर्व लाम 271.39 258.99 211.32 530.38 400.56 1296.69

201.96

टिप्पणीः

कर के बाद लाम

उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज त्रैमासिक / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। त्रैमासिक / वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है। यह कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.megastarloods.com पर निवेशक शीर्षक के अंतर्गत भी उपलब्ध है।

196.66

143.94

मेगास्टार फूड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल हेतू तथा उसकी ओर से

398.62

284.16

961.71

स्थानः चंडीगढ दिनांकः 08 नवम्बर, 2023

विकास गोयल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक DIN: 05122585

## **GVP INFOTECH LIMITED**

Reg Office: Office no. 710, Naurang House, Kasturba Gandhi (KG) Road, Connaught Place, New-Delhi-110001 www.gvpinfotech.com CIN: L74110DL2011PLC221111

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER 30TH SEPTEMBER, 2023

Quarter ended 30 September 2023 (Up-Audited)	Quarter ended 30 June 2023 (Un-Audited)	Quarter ended 30 September 2022 (Up-Audited)	Half Year ended 30 September 2023	Half Year ended 30 September 2022 (Un-Audited)	(Rs. In Lak Year ended 31 March 2023 (Audited)
1,400,000,000,000,000	- A 1000 (1000 11 - 100)	100000000000000000000000000000000000000	a and the second of the second of the second		2.147.47
40.000.000.000.000					1,695.00
	7.00.00.00.00	7000000000000	44 Figgs (000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	NO STATE OF THE PARTY OF THE PA	452.47
2010 2011 224		175.10	38.82	20 310000000000000	452.47
12.63	26.20	175.10	38.82	144.02	449.39
12.63	26.20	175.10	38.82	144.02	449.39
12.63	26.20	175.10	38.82	144.02	449.39
3,257.24	3,257.23	3,257.24	3,257.24	3,257.24	3,257.23
(i)			30.414 - 11.30 - 100.00.00		
0.01	0.02	0.54	0.02	0.44	0.28
0.01	0.02	0.54	0.02	0.44	0.28
	ended 30 September 2023 (Un-Audited) 477.08 464.45 12.63 12.63 12.63 12.63 3,257.24	ended 30 September 2023         ended 30 June 2023           (Un-Audited)         (Un-Audited)           477.08         1,335.43           464.45         1,309.23           12.63         26.20           12.63         26.20           12.63         26.20           12.63         26.20           12.63         26.20           3,257.24         3,257.23           0.01         0.02	ended 30 September 2023         ended 30 June 2023         ended 30 September 2022           (Un-Audited)         (Un-Audited)         (Un-Audited)           477.08         1,335.43         453.83           464.45         1,309.23         278.73           12.63         26.20         175.10           12.63         26.20         175.10           12.63         26.20         175.10           12.63         26.20         175.10           12.63         26.20         175.10           3,257.24         3,257.23         3,257.24           0.01         0.02         0.54	ended 30 September 2023         ended 30 June 2023         ended 30 September 2022         ended 30 September 2023           (Un-Audited)         (Un-Audited)         (Un-Audited)         (Un-Audited)           477.08         1,335.43         453.83         1,812.51           464.45         1,309.23         278.73         1,773.69           12.63         26.20         175.10         38.82           12.63         26.20         175.10         38.82           12.63         26.20         175.10         38.82           12.63         26.20         175.10         38.82           12.63         26.20         175.10         38.82           3,257.24         3,257.23         3,257.24         3,257.24           0.01         0.02         0.54         0.02	ended 30 September 2023         ended 30 September 2023         ended 30 September 2022         ended 30 September 2023         ended 30 September 2022           (Un-Audited)         (Un-Audited)         (Un-Audited)         (Un-Audited)           477.08         1,335.43         453.83         1,812.51         454.70           464.45         1,309.23         278.73         1,773.69         310.68           12.63         26.20         175.10         38.82         144.02           12.63         26.20         175.10         38.82         144.02           12.63         26.20         175.10         38.82         144.02           12.63         26.20         175.10         38.82         144.02           12.63         26.20         175.10         38.82         144.02           12.63         26.20         175.10         38.82         144.02           12.63         26.20         175.10         38.82         144.02           3,257.24         3,257.24         3,257.24         3,257.24         3,257.24           0.01         0.02         0.54         0.02         0.44

1) The above results were reviewed by the audit Committee and were approved and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on November

2) During the Quarter W/off of creditors amounting to Rs 20.22 Lakhs. 3) Previous Year's figures have been regrouped, reclassified wherever considered necessary.

Date: 08.11.2023

Place: New Delhi

For, GVP Infotech Limited Dhaval Mistry (Director)

# PERFECTPAC LIMITED Regd. Office: 910, Chiranjiv Tower-43, Nehru Place, New Delhi - 110019

Phone No.: 011-26441015-18, Website: www.perfectpac.com Email: complianceofficer@perfectpac.com, CIN No.: L72100DL1972PLC005971

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

(Rs. In lakhs except EPS **Quarter Ended** Half Year Ended Year Ended **PARTICULARS** 30.09.2023 30.06.2023 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2022 31.03.2023 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 2,532.98 2,397.92 4,930.90 Total Revenue from operations 2,455.61 4,984.08 9,992.99 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items) 144.61 160.28 101.35 304.89 141.76 365.76 304.89 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items) 144.61 160.28 101.35 141.76 365.76 62.16 283.20 Net Profit / (Loss) for the period after tax and Exceptional items 114.59 119.31 233.90 98.95 62.16 287.90 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) 114.59 119.31 233.90 98.95 for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] **Equity Share Capital** 133.26 133.26 133.26 133.26 133.26 133.26 Earnings Per Share of Rs. 2/- each 1.79 0.93 1.49 1. Basic (Rs.) 1.72 3.51 4.25

2. Diluted (Rs.) NOTES:

1. The above unaudited financial results were, subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by

2023 along with review report of the Statutory Auditors is available under the investor section of our website at www.perfectpac.com and on the website of the stock exchange i.e.

1.79

0.93

3.51

the Board of Directors at its Meeting held on November 08, 2023. 2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the guarter and half year ended September 30,

1.72

For Perfectpac Limited Sanjay Rajgarhia

**Managing Director** 

4.25

1.49

Place: New Delhi

www.bseindia.com.

Date: 08.11.2023

www.readwhere.com

(ब) परिसमाप्तः